



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 13] नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 29—अप्रैल 4, 2008 (चैत्र 9, 1930)  
No. 13] NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 29—APRIL 4, 2008 (CHAITRA 9, 1930)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके  
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

## भाग III—खण्ड 4

### [PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]

[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

भारतीय रिज़र्व बैंक

सरकारी और बैंक लेखा विभाग

केन्द्रीय कार्यालय

मुंबई, दिनांक 28 जनवरी 2008

भारत सरकार के राजपत्र में 20 अप्रैल 1946 को प्रकाशित तथा 29 अप्रैल 1954 की अधिसूचना सं. एफ. (8) 70/बी 52 और भारत सरकार के दिनांक 21 फरवरी, 1990 के असाधारण राजपत्र सं. 67 के अंतर्गत यथा संशोधित लोक ऋण अधिनियम, 1944 की धारा 28 के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा बनाए गए लोक ऋण नियमावली, 1946 के नियम 18 के अनुसरण दिसम्बर 2007 को समाप्त माह के लिए निम्नलिखित सूची खो गई आदि ऐसी प्रतिभूतियों के बारे में एतद्वारा विज्ञापित की जाती है, जिसके संबंध में इस बात का विश्वास करने के लिए प्रथम दृष्टया आधार मौजूद है कि प्रतिभूतियां खो गयी हैं और आवेदकों का दावा न्यायोचित है। नीचे लिखे गये संबंधित दावेदारों से इतर सभी व्यक्ति जिसका प्रतिभूतियों पर किसी प्रकार का दावा हो, तत्काल महा प्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक केन्द्रीय कार्यालय, सरकारी और बैंक लेखा विभाग, केन्द्रीय ऋण प्रभाग, मुंबई-400008 को संसूचित करें। सूची दो भागों में विभाजित की गई है। भाग “क” में अभी पहली बार विज्ञापित प्रतिभूतियां शामिल की गई हैं और भाग “ख” में पूर्व विज्ञापित प्रतिभूतियों की सूची दी गई है।

### सूची “क”

प्रतिभूतियों की सं.	मूल्य	जिस व्यक्ति के नाम जारी किया	बकाया ब्याज की तिथि	प्रतिभूति के भुगतान के लिए दावेदार का नाम	प्रतिलिपि आदेश तिथि तथा संख्या
1	2	3	4	5	6

-नहीं-

सूची "ख"

मुंबई (फोर्ट) सर्कल

भारत सरकार 5½% प्रतिशत ऋण 1999

प्रतिभूतियों की सं.	मूल्य	जिस व्यक्ति के नाम जारी किया	बकाया ब्याज की तिथि	प्रतिभूति के भुगतान के लिए दायेदार का नाम	प्रतिलिपि आदेश तिथि तथा संख्या
1.	2.	3.	4.	5.	6.
बीवाय - 032464	10,000/- }	एम.एन. गोगटे }	4.11.1991 }	एम.वाय. जोशी }	महाप्रबंधक के दिनांक 03.10.2007 के
बीवाय - 032465	10,000/- }	एल.वी. आपटे }		एस.आर. आपटे }	आदेश तथा केन्द्रीय कार्यालय डायरी
बीवाय - 032466	5,000/- }	के.सी.एम. भाटवडेकर }		एम.एल. आपटे }	संख्या 379 दिनांक 4.10.2007
		आर.बी. आपटे }		एस.डि. दांडेकर }	
		डि.पी. दांडेकर }		ए.एस. मेहेंदळे }	
		या कोई दो लोग }			

भारत सरकार 9% प्रतिशत ऋण 2013

बी.वाय - 004785	7,500/-	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	07.04.1984	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	महाप्रबंधक के दिनांक 20.11.2007 के
					आदेश तथा केन्द्रीय कार्यालय डायरी
					संख्या 1127 दिनांक 22.11.2007

(जे.एम. बाबा )  
सहायक प्रबंधक

## पंजाब नैशनल बैंक

## प्रधान कार्यालय

नई दिल्ली, दिनांक 10 मार्च 2008

संख्या:पीएनबी/एसडी/114

बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन तथा अन्तरण) अधिनियम 1970 (1970 का 5) की धारा 19 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पंजाब नैशनल बैंक का निदेशक-मंडल, भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श तथा केन्द्रीय सरकार की पूर्व स्वीकृति से एतद् द्वारा पंजाब नैशनल बैंक (शेयर एवं बैठकें) विनियम 2000 में आगे निम्नलिखित संशोधन का प्रस्ताव करता है, यथा :-

1. (1) इन विनियमों को पंजाब नैशनल बैंक (शेयर एवं बैठकें) संशोधन विनियम 2008 कहा जाएगा ।
- (2) ये संशोधन सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

## 2. पंजाब नैशनल बैंक (शेयर एवं बैठकें) विनियम 2008 के विनियम 2 एवं 4 में संशोधन

- (i) विनियम 2 में धारा (पी) के लिए निम्न धारा प्रतिस्थापित की जाएगी -

"(पी) इसमें प्रयुक्त शब्द एवं अभिव्यक्ति जिन्हें इन विनियम में परिभाषित नहीं किया गया है परंतु जिन्हें अधिनियम अथवा योजनाओं में अथवा भारतीय प्रतिभूति एवं एक्चेंज बोर्ड द्वारा जारी मार्गनिर्देशों में और अधिनियम के खण्ड 3 के उपखण्ड (2बी) की धारा (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत दी गयी शक्तियों के अनुसरण में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा तैयार मार्गनिर्देशों में परिभाषित किया गया है, का क्रमशः वही अर्थ होगा जो अर्थ उन्हें अधिनियम अथवा योजना में अथवा भारतीय प्रतिभूति एवं एक्चेंज बोर्ड अथवा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा तैयार मार्गनिर्देशों, जैसा भी मामला हो, में दिया गया है ।"

- (ii) विनियम 4 के पश्चात निम्नलिखित विनियम शामिल किया जाए -

"4ए (1) बैंक सार्वजनिक निर्गम द्वारा अथवा इक्विटी शेयरों अथवा अधिमानी शेयरों के अधिमानी आबंटन अथवा प्राइवेट प्लेसमेंट द्वारा पूंजी एकत्रित कर सकता है ।

- (2) बैंक पूंजी बढ़ाने के लिए, पूंजी बढ़ाने से संबंधित भारतीय प्रतिभूति एवं एक्चेंज बोर्ड के मार्गनिर्देशों, नियमों अथवा विनियमों के अनुसरण में एक प्रस्ताव तैयार करेगा ।

- (3) बैंक द्वारा सार्वजनिक निर्गम द्वारा अथवा अधिमानी शेयरों के अधिमानी आबंटन अथवा प्राइवेट प्लेसमेंट के द्वारा पूंजी बढ़ाने के लिए ऐसे अधिमानी शेयरों (चाहे वे शाशवत रूप में हों अथवा मोचनीय अथवा अमोचनीय), जारी किए जाने वाले प्रत्येक वर्ग के शेयरों की मात्रा एवं बैंक द्वारा जारी किए जाने वाले प्रत्येक वर्ग के अधिमानी शेयरों के लिए नियम एवं शर्तों का निर्धारण अधिनियम के खण्ड 3 के उपखण्ड (2बी) की धारा (सी) में दिए गए प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा तैयार मार्गनिर्देशों के अनुरूप होंगे ।
- (4) बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा एवं प्रस्ताव को अंतिम रूप देने से पूर्व रिजर्व बैंक के विचारों को ध्यान में रखेगा ।
- (5) तत्पश्चात अंतिम रूप से तैयार प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास उसकी मंजूरी के लिए प्रस्तुत किया जाएगा एवं केन्द्र सरकार किन्हीं नियम एवं शर्तों, जैसा वह ठीक समझे, के अध्याधीन मंजूरी प्रदान कर सकती है ।
- (6) बैंक केन्द्र सरकार की मंजूरी के अनुरूप पूंजी उगाहेगा ।"

( वाइ.पी.नारंग )  
महाप्रबंधक

टिप्पणी - मूल विनियम भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 17 (भाग-3, खण्ड 4) दिनांक 22 अप्रैल, 2000 के अंतर्गत प्रकाशित हुआ था तथा तत्पश्चात संशोधन अधिसूचना संख्या 47(भाग-3, खण्ड 4) दिनांक 22-28 नवम्बर, 2003 के अंतर्गत भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए ।

## कर्मचारी राज्य बीमा निगम

नई दिल्ली, दिनांक 25 फरवरी 2008

सं. यू. 16/53/Kart/03-चि. 2.--कर्नाटक कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 के विनियम 105 के अधीन निगम की शक्तियों महानिदेशक को प्रदान करने के संबंध में कर्मचारी राज्य बीमा निगम की दिनांक 25 अप्रैल, 1951 को हुई बैठक में पारित किए गए संकल्प के अनुसरण में तथा महानिदेशक के आदेश संख्या 1024 (जी) दिनांक 23/5/1983 द्वारा ये शक्तियां आगे मुझे सौंपी जाने पर मैं इसके द्वारा निम्नलिखित डॉक्टर को मानकों के अनुसार देय परिश्रमिक पर निम्नलिखित तिथि तक एक वर्ष के लिए पूर्णकालिक चिकित्सा निर्देशी के कार्यग्रहण करने तक, जो भी पूर्व हो, को राज्य बीमा आयुक्त, कर्नाटक द्वारा निर्धारित क्षेत्र के लिए बीमाकृत व्यक्तियों की स्वास्थ्य परीक्षा करने तथा मूल प्रमाण-पत्र की सत्यता संदिग्ध होने पर उन्हें आगे प्रमाण-पत्र जारी करने के प्रयोजन के लिए चिकित्सा अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती हूं।

डॉक्टर का नाम	अवधि	केन्द्र का नाम
डॉ. के. आर. रामाचन्द्रा	3.3.2008 से 2.3.2009	मलेशवरम

डॉ. कमलेश कालरा  
चिकित्सा आयुक्त

नई दिल्ली, दिनांक फरवरी 2008

सं. आर.-12/19/1/2007-हितलाभ-2--कर्मचारी राज्य बीमा निगम के 14 दिसम्बर, 1980 के संकल्प के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा निगम साधारण विनियमावली, 1950 के विनियम 75 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक ने कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की धारा 54 व 54क के उद्देश्य व निगम के दिनांक 28.2.76 के संकल्प यथा संशोधित के पैरा-4 में उल्लिखित मामलों की जांच और तत्संबंधी सिफारिश करने हेतु निम्नलिखित चिकित्सा परिषद् का गठन किया है।

1. निदेशक (चिकित्सा) दिल्ली	अध्यक्ष
क. रा. बी. अस्पताल बसईदारापुर, नई दिल्ली	
2. विशेषज्ञ (अस्थि रोग)	सदस्य
क. रा. बी. अस्पताल, बसईदारापुर, नई दिल्ली	
3. विशेषज्ञ (शल्य चिकित्सा)	सदस्य
क. रा. बी. अस्पताल, बसईदारापुर, नई दिल्ली	

अध्यक्ष को यह प्राधिकार भी दिया गया है कि वे बीमाकृत व्यक्ति विशेष की विकलांगता के स्वरूप को ध्यान में रखते हुए अपेक्षित होने पर उपरोक्त चिकित्सा विशेषज्ञों के स्थान पर अथवा अतिरिक्त सदस्य के रूप में क. रा. बी. अस्पताल, बसईदारापुर, नई दिल्ली के संबंधित विशेषज्ञ अथवा किसी अन्य संस्थान के संबंधित विशेषज्ञ को भी परिषद् में सहयोजित कर सकेंगे।

अधिकार क्षेत्र इस परिषद् के अधिकार क्षेत्र में हरियाणा राज्य के शहर हिसार, भिवानी, रोहतक, बहादुरगढ़, सोनीपत, राई, गुडगांव, डुण्डाहेडा, धारुहेरा और मानेसर होंगे।

अशोक ज. पवार  
बीमा आयुक्त

RESERVE BANK OF INDIA  
DEPARTMENT OF GOVERNMENT & BANK ACCOUNTS  
CENTRAL DEBT DIVISION

Mumbai, the 28th January 2008

In pursuance of Rule 18 of the Public Debt Rules, 1946 made by the Government of India under Section 28 of the Public Debt Act, 1944 and published in the Gazette of 20th April 1946 (as amended under the Notification No. F(8)/70-B/52 dated the 29th April, 1954 and the Notification in Extra Ordinary Gazette No. 67 dated 21st February 1990), the following list of securities lost etc. in respect of which prima facie ground exists for believing that the securities have been lost and the claim of applicant is just for the month ended December 2007 is hereby advertised. All persons other than the respective claimants named below, who have any claim upon these securities should communicate immediately with Chief General Manager, Reserve Bank of India, Central Office, Department of government and Bank Accounts, Central Debt Division, Mumbai-400008.

The list has been divided into two parts, List "A" being securities now advertised for the first time and list "B" being the list of securities previously advertised.

List "A"

No. of Security	Value in Rs./Grams	In whose name issued	From what date bearing interest	Name(s) of the claimant(s) for issue of duplicate and/or payment of discharge value	No. and date of order issued
1	2	3	4	5	6
-Nil-					

List "B"

MUMBAI(FORT)CIRCLE  
(5.50% GOI Loan 1999)

No. of Security	Value in Rs./Grams	In whose name issued	From what date bearing interest	Name(s) of the claimant(s) for issue of duplicate and/or payment of discharge value	No. and date of order issued
1	2	3	4	5	6
BY-032464	10,000/-	M. N. Gogate	4.11.1991	M. Y. Joshi	General Manager's
BY-032465	10,000/-	L. V. Apte		S. R. Apte	orders dated
BY-032466	5,000/-	K. C. M. Bhatwadekar		M. L. Apte	3.10.07. Central
		R. B. Apte		S. D. Dandekar	Office Diary
		D. P. Dandekar		A. S. Mehendale	No. 379 dated
		any two of these			4.10.2007

(9% GOI Loan 2013)

No. of Security	Value in Rs./Grams	In whose name issued	From what date bearing interest	Name(s) of the claimant(s)	No. and date of order issued
1	2	3	4	5	6
BY-004785	7,500/-	State Bank of India	07.04.1984	State Bank of India	General Manager's order's dated 20.11.2007. Central Office diary No. 1127 dated 22.11.2007

J. M. BAVA  
Asstt. Manager

## Punjab National Bank

New Delhi Dated, the 10<sup>th</sup> March 2008

No. PNB/SD/114

In exercise of powers conferred by section 19 of the Banking Companies (Acquisition And Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970), the Board of Directors of Punjab National Bank after consultation with the Reserve Bank of India and with the previous sanction of the Central Government propose to make the following amendments to the Punjab National Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2000, namely:-

1. Short title and commencement-(1) These Regulations may be called Punjab National Bank (Shares & Meetings) Amendment Regulations, 2008. (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. Amendments of Regulations 2 and 4 – In the Punjab National Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2008.
  - (i) in regulation 2, for clause (p), the following clause shall be substituted, namely:-

“(p) The words and expressions used herein and not defined in these Regulations but defined in the Act or Schemes, or guidelines issued by the Securities and Exchange Board of India, and the guidelines framed by the Reserve Bank in pursuant to the powers conferred on it under the proviso to clause ( c ) of sub section (2B) of section 3 of the Act shall have same meaning respectively assigned to them in the Act or the Scheme or the guidelines issued by the Securities and Exchange Board of India or framed by the Reserve Bank, as the case may be”;
  - (ii) after regulation 4, the following regulations shall be inserted, namely:-

“4A (1) The Bank may raise capital by public issue or preferential allotment or private placement of Equity Shares or Preference shares.

(2) The Bank shall formulate a proposal to raise capital in accordance with the guidelines, rules or regulations of the

Securities and Exchange Board of India, relating to raising of such capital.

- (3) For raising capital by public issue or preferential allotment or private placement of Preference Shares, the extent of issue of each class of such Preference Shares (whether perpetual or irredeemable or redeemable) and the terms and conditions subject to which each class of such Preference Shares that may be issued by the Bank shall be determined in accordance with the guidelines framed by the Reserve Bank in pursuant to the provisions contained in the proviso to clause ( c ) of sub-section (2B) of section 3 of the Act.
- (4) The Bank shall submit the proposal to the Reserve Bank and take into account the views of the Reserve Bank before finalizing the proposal.
- (5) The final proposal shall thereafter be submitted to the Central Government for its sanction and the Central Government may grant sanction subject to such terms and conditions as it may deem fit.
- (6) The Bank shall raise capital in accordance with the sanction of the Central Government.”

(Y. P. Narang)  
General Manager

Foot Note: The Principal Regulation was published in the Gazette of India vide Notification No. 17 (Part III, Section 4) dated April 22, 2000 and subsequent amendments published in the Gazette of India vide Notification No.47 (Part III, Section 4) dated November 22-28, 2003.



## EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION

New Delhi, the 25th February 2008

No.U-16/53/Kart/2003/Med.II - In pursuance of the resolution passed by ESI Corporation at its meeting held on 25.4.1951 conferring upon the Director General the powers of the Corporation under Regulation 105 of the ESI (General) Regulation, 1950 and such powers further delegated to me vide Director General's Order No. 1024(G) dated 23.5.1983, I hereby authorize the following doctor to function as Medical Authority at a monthly remuneration in accordance with the norms w.e.f. the date given below for one year or till a full time Medical Referee joins, whichever is earlier, for centres as stated below for areas to be allocated by State Medical Commissioner, Bangalore for the purpose of medical examination of the insured person and grant of further certificates to them when the correctness of the original certificate is in doubt.

<u>NAME</u>	<u>Period</u>	<u>Name of Centre</u>
Dr. K.R. Ramachandra	03.03.2008 to 02.03.2009	Malleswaram

(DR. KAMLESH KALRA)  
MEDICAL COMMISSIONER

3-514 92/07

## EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION

New Delhi, the February 2008

No. R-12/19/1/2007-Bft. II.—

In exercise of the powers under Regulation 75 of the ESI (General) Regulations, 1950 read with the Resolution of the ESI Corporation dated 14<sup>th</sup> December, 1980, empowering the Director General to exercise such powers, the Director General, Employees' State Insurance Corporation has constituted following Medical Board for the purpose of Section 54 and 54-A of the ESI Act, 1948 and to examine and recommend the cases under Para 4 of the Corporation's Resolution dated 28.02.76 (as amended).

- |    |  |          |
|----|--|----------|
| 1. | Director (Medical) Delhi<br>ESI Hospital, Basaidarapur<br>New Delhi  | Chairman |
| 2. | Specialist (Orthopaedics)<br>ESI Hospital, Basaidarapur<br>New Delhi | Member   |
| 3. | Specialist (Surgery)<br>ESI Hospital, Basaidarapur<br>New Delhi      | Member   |

The Chairman is authorized to co-opt any other specialist as a member of the Board in lieu of or in addition to the Specialist members mentioned above, either from the ESI Hospital, Basaidarapur, New Delhi or from some other institution if necessary, depending upon the nature of disablement from which insured person to be examined, is suffering.

**Jurisdiction:** The Board will have the jurisdiction over areas falling under the branch offices of Haryana State namely Hissar, Bhiwani, Rohtak, Bahadurgarh, Sonapat, Rai, Gurgaon, Tundahera, Dharuhera, Manasar.

(A. J. PAWAR)  
INSURANCE COMMISSIONER